

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2014/माघ 28, 1935

No. 41]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2014/MAGHA 28, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

**संकल्प**

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

**फा.सं.12015/05/2011-बी.सी.II.**— जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को **अनुबंध-1** में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और **अनुबंध-II** में यथानिर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने 13 राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और 3 संघ राज्य क्षेत्रों नामशः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, परिशिष्ट में यथानिर्दिष्ट उपरोक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त सूची में समावेशन एवं संशोधनों को एतद्वारा अधिसूचित करती है। ये समावेशन और संशोधन राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

### परिशिष्ट

#### भाग - क

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना :

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गोवा
4. हिमाचल प्रदेश
5. झारखण्ड
6. कर्नाटक
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. पंजाब
10. तमिलनाडु
11. उत्तराखण्ड
12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल
14. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
15. पुडुचेरी
16. चण्डीगढ़

#### भाग - ख

राज्य-वार अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीयसूची में संशोधन

(i) आंध्र प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टियां
108. शून्य	108. गुडिआ/गुडिया (श्रीकाकुलम, विजयानगरम तथा विशाखापट्टनम जिलों तक ही

	सीमित)
109. शून्य	109. कुर्मी (तेलंगाना क्षेत्र तथा कृष्णा जिले तक ही सीमित)
110. शून्य	110. बुडुबुंजाला/भुंजवा/भडभुंजा (हैदराबाद तथा रंगारेड्डी जिलों तक ही सीमित)
111. शून्य	111. लक्कामारी कापू (तेलंगाना क्षेत्र तक ही सीमित)

## (ii) गोवा

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
20. शून्य	20. विश्वकर्मा/चारी/मेस्ता

## (iii) हिमाचल प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
2. अरद पोप	2. अरद पोप, पोपो ब्राह्मण
27. धींवर या झींवर, झींवर	27. धींवर या झींवर, झींवर, झिंवर, झियूर, झीर
54. शून्य	54. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जिला मंडी की चोहार घाटी की 12 ग्राम पंचायतों "बरधान, बरोट, बथेरी, धमच्याण, कथोग, लटरान, लपास, रोपा, सिलवधवानी, सुधार, टिक्कर, तरस्वान में निवास करने वाले चौहारका

## (iv) झारखण्ड

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टियां
128. शून्य	128. छिपी
129. शून्य	129. मयरा (मैरा) मोदक

## (v) कर्नाटक

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
145. तिगाला, थिगाला, तिगलर, वाणिकूला क्षत्रिय, वन्निया, वन्नियार, वन्निया गावन्डर, गाऊंडर/गौवन्डर, पदयाची, कांडेर, शंभुकुला क्षत्रिय, अग्निकुला क्षत्रिय, धर्मराजा कापु, कुरोवान, पल्ली	145. तिगाला, थिगाला, तिगलर, वाणिकूला क्षत्रिय, वन्निया, वन्नियार, वन्निया गावन्डर, गाऊंडर/गौवन्डर, पदयाची, कांडेर, शंभुकुला क्षत्रिय, अग्निकुला क्षत्रिय, धर्मराजा कापु, कुरोवान, पल्ली, अग्निवन्ची, अग्निवन्श क्षत्रिय
146. बेलदार, चूनार, गवंदी, गोवंदी, गावदी, गाउंडी, मेलूसक्करे, काल्लू कुटीगा उप्परा, मेलूसक्करेयावरू, नामदा उपारा, सुन्ना उप्पारा, सून्नागरा, पदित/पद्धति, पदिथि, उप्पपलिगा, उप्पपलिगा सेट्ठी, सागर, सागरा, केरेबंदीयावरू, लोनारी, येक्कली, याकालरा	146. उप्पारा, उप्पर, उप्पेरा, लिंगायत उप्पारा/सुन्नागरा, उप्पलियान, बेलदार, चूनार, गवंदी, गोवंदी, गावदी, गाउंडी, मेलूसक्करे, काल्लू कुटीगा उप्परा, मेलूसक्करेयावरू, नामदा उपारा, सुन्ना उप्पारा, सून्नागरा, पदित/पद्धति, पदिथि, उप्पपलिगा, उप्पपलिगा सेट्ठी, सागर, सागरा, केरेबंदीयावरू, लोनारी, येक्कली, याकालरा
155. इडिगा, बेलचाड, पूजारी, देशा भंडारी, ईडिगा, इलिगा, ईलिगा, हालेपाइक, होलेपाइ-	155. इडिगा, बेलचाड, पूजारी, देशा भंडारी, ईडिगा, इलिगा, ईलिगा, हालेपाइक, होलेपाइ-कारू, बिल्लावा, देवार, मलयाली बिल्लावा, दीवार,

कारू, बिल्लावा, देवार, मलयाली बिल्लावा, दीवार, दावरामक्कालू, दिवारामक्कालू, नामधारी, कलाल, गौंडला, गुंडला, थियान, थिय्यान, तियान, इझावा, थिया, नदार, <b>गामल्ला</b>	दावरामक्कालू, दिवारामक्कालू, नामधारी, कलाल, गौंडला, गुंडला, थियान, थिय्यान, तियान, इझावा, थिया, नदार, <b>गामल्ला</b>
157. दर्जी, भवसार क्षत्रिय, चिप्पी, चिप्पीगा, सिम्पी, शिम्पी, लिंगयात सिम्पी, सिवसिम्पी, साई, मिराई, रंगारी, रंगरेज, निलारी, नामदेव, नामदेव सिम्पी, रंगारे, नीलागर, लिंगयात नीलागर	157. दर्जी, भवसार क्षत्रिय, चिप्पी, चिप्पीगा, सिम्पी, शिम्पी, लिंगयात सिम्पी, सिवसिम्पी, साई, मिराई, रंगारी, रंगरेज, निलारी, नामदेव, नामदेव सिम्पी, रंगारे, नीलागर, लिंगयात नीलागर, <b>बनागारा</b>
160. पट्टेगार, पट्टेकरी, पट्टेगर	160. पट्टेगार, पट्टेकरी, पट्टेगर, <b>सोमवंश सहस्रजुना क्षत्रिय</b>
167. बालिजा, बालाजिगा, बानाजिगा, बाले बालाजिगा, दास बानाजिगा, नायडू, भोगम/तेलुगा, तेलगा बालिजा, तेलगा बानाजिगा, सेट्टी बालीजा, सेट्टी बालाजिगा, कासवान, मन्नूर/मुन्नार, मुत्रासी/मात्राच, जन्नाप्पान, बालेगरा, लिंगयात बालेगाला/ बालेशतारू	167. बालिजा, बालाजिगा, बानाजिगा, बाले बालाजिगा, दास बानाजिगा, नायडू, भोगम/तेलुगा, <b>कलावंती</b> , तेलगा बालिजा, तेलगा बानाजिगा, सेट्टी बालीजा, सेट्टी बालाजिगा, कासवान, मन्नूर/मुन्नार, मुत्रासी/मात्राच, जन्नाप्पान, बालेगरा, लिंगयात बालेगाला/ बालेशतारू
196. शून्य	196. राया रावथ, रावत
197. शून्य	197. डवेरी
198. शून्य	198. गारूडी, गारुडिगा, गाराडिगा (हिंदू और मुस्लिम) (जिनका व्यावसायिक पेशा सांप का खेल दिखाना, बाजीगरी और कलाबाजी दिखाना होता है)।
199. शून्य	199. आंडी, आंडीपंडारम

## (vi) केरल

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
54. सालिया	54. सालिया, चालिया (चालियन) (जिस जाति का व्यवसाय सूत बुनना है)
79. कल्लन मूपपन या कल्लन मूपपर	79. <b>मुप्पर</b> या कल्लन मूपपन या कल्लन मूपपर
82. शून्य	82. <b>महेन्द्रा-मंदरा</b>
83. शून्य	83. <b>कुरुबा</b>

## (vii) महाराष्ट्र

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टियां
14. भडभुंजा, भुरजवा, भुरजावा, भुर्जी, भारदबहुंगा, भुरंजी, भुंज	14. भडभुंजा, भुरजावा, भुर्जी, भारदबहुंगा, भुरंजी, भुंज, <b>भुजवा</b>

159. माली (उप जाति : फूलमाली, फुले, हलादे, कचा, कादु, बवाने, एडप्रभु, एद सेठी, जिरे, उण्डे, लिंगयात माली, बंका माली, गासे माली, कोसारे माली, मरार, मराल, सवता माली, वन माली, बागबन/रायीन), सूतारस, मालीस, वादवल्स, चाउकलशिश	159. माली (उप जाति : फूलमाली, फुले, हलादे, कचा, कादु, बवाने, एडप्रभु, एद सेठी, जिरे, उण्डे, लिंगयात माली, बंका माली, गासे माली, कोसारे माली, मरार, मराल, सवता माली, वन माली, बागबन/रायीन), सूतारस, मालीस, वादवल्स, चाउकलशिश, <b>पाचकलशी, सोमवंशी क्षत्री एवं पाथेर</b>
---	--

**(mii) पंजाब**

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टियां
11. रेहर, रहेरा	11. रेहर, रहेरा, रे
21. नाई, सेन	21. नाई, सेन, नाई (कुलीन ब्राह्मण)
26. बराई	26. बराई, तंबोली
40. झांगडा ब्राह्मण, खाती, लोहार, सैफी, रामगढ़िया, तरखान	40. झांगडा ब्राह्मण, खाती, लोहार, सैफी, रामगढ़िया, तरखान, <b>धीमान</b>

**(ix) तमिलनाडु**

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
3. अम्बलाकर, अम्बलकरन	3. अम्बलाकर, अम्बलकरन (सरवाई सहित)
146. थोरियार, नीलगिरी का बडगा थोरइयार,	146. थोरियार, नीलगिरी का बडगा थोरइयार, <b>थोरइयार (समतल)</b>
147. थोटिया नैकर (राजकमलम, गोलावार, सीलावार, थोकालवर और तोलूवा नैकर सहित)	147. थोटिया नैकर (राजकमलम, गोलावार, सीलावार, थोकालवर और तोलूवा नैकर सहित), <b>इरागोल्लर</b>
162. वेल्लेन चेटियार	162. वेल्लेन चेटियार, <b>अगाराम वेल्लेन चेटियार</b>
181. शून्य	181. <b>लेटिन केथोलिक ईसाई वन्नार (कन्याकुमारी जिले में)</b>

**(x) पश्चिम बंगाल**

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टियां
63. शून्य	63. देवंगा
64. शून्य	64. हज्जाम (मुस्लिम)
65. शून्य	65. चौधुली (मुस्लिम)
66. शून्य	66. निकारी (मुस्लिम)
67. शून्य	67. महाल्दर (मुस्लिम)
68. शून्य	68. धुकरे (मुस्लिम)
69. शून्य	69. बस्नी/बोस्नी (मुस्लिम)
70. शून्य	70. अबदल (मुस्लिम)
71. शून्य	71. कान (मुस्लिम)
72. शून्य	72. तुतिया (मुस्लिम)
73. शून्य	73. गायेन (मुस्लिम)

74. शून्य	74. बेलदार (मुस्लिम)
75. शून्य	75. खोता मुस्लिम
76. शून्य	76. मुस्लिम सरदार
77. शून्य	77. मुस्लिम कलंदर
78. शून्य	78. मुस्लिम लस्कर
79. शून्य	79. मुस्लिम जमादार
80. शून्य	80. मुस्लिम चुतोर मिस्त्री
81. शून्य	81. मुस्लिम दफादार
82. शून्य	82. मल मुस्लिम
83. शून्य	83. माझी/पटनी मुस्लिम
84. शून्य	84. मुची/चमार मुस्लिम
85. शून्य	85. मुस्लिम नेहरिया
86. शून्य	86. मुस्लिम हल्दर
87. शून्य	87. मुस्लिम सेनपुई/सपुई
88. शून्य	88. मुस्लिम बिस्वास
89. शून्य	89. मुस्लिम माली
90. शून्य	90. घोसी (मुस्लिम)
91. शून्य	91. मुस्लिम दर्जी/ओस्तागर/इदरिशी
92. शून्य	92. मुस्लिम राजमिस्त्री
93. शून्य	93. मुस्लिम भटियारा
94. शून्य	94. मुस्लिम मोल्ला
95. शून्य	95. डाली (मुस्लिम)
96. शून्य	96. मुस्लिम पियादा
97. शून्य	97. मुस्लिम बारुजिबी/बरुई
98. शून्य	98. मुस्लिम पेंची
99. शून्य	99. गंगोत

## संघ राज्य क्षेत्र

## (i) चंडीगढ़

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
4. बरई, तम्बोली/तोम्बोली	4. बरई, तम्बोली/तोम्बोली, तरबोली
5. बर्रा	5. बर्रा, बर्रर
9. भरभूज, भरभूज	9. भरभूज, भरभूज, भरभूरिया
12. चांग	12. चांग चाहंग
13. चांगर	13. चांगर, चाम्गर
14. छिम्बा/चिम्बा, छिप्पी/छिपी/ चिपी	14. छिम्बा/चिम्बा, छिप्पी/छिपी/चिपी, दर्जी/दर्ज, टैंक, चिम्पा, चिबा, (हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)

19. धीमार, धींवर, झींवर, कहार, मल्लाह	19. धीमार, धींवर, झींवर, कहार, मल्लाह, <b>कस्ये राजपूत</b>
21. धोसाली, दोसाली	21. धोसाली, दोसाली, <b>भोसाली (हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)</b>
23. गदरिया/गदरिया	23. गदरिया/गदरिया, <b>गडेरिया</b>
25. घसियारा, घोसी	25. घसियारा, घोसी, <b>घानी/घाजी, गोसियारा अथवा घोसिया</b>
28. हज्जाम/हजाम, नाई	28. हज्जाम/हजाम, नाई, <b>नाईस</b>
35. कुर्मी	35. कुर्मी, <b>कुम्मी</b>
39. लखेरा, मनिहार	39. लखेरा, मनिहार, <b>कनिहार</b>
46. पिंजा, पेंजा	46. पिंजा, पेंजा, <b>पेम्जा (हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)</b>
49. रेहर, रेहारे/रेहारा, रेर/रे	49. रेहर, रेहारे/रेहारा, रेर/रे, <b>रेहार्ड</b>
51. सिंघीकान्त, सिंघीवाला/ सिंघीवाला	51. सिंघीकान्त, सिंघीवाला/सिंघीवाला, <b>सिंघीकार, सिंघवाला</b>
54. ठठेरा/ठठेरा	54. ठठेरा/ठठेरा, <b>तमेरा</b>
59. सोनी, सुनार/स्वर्णकार	59. सोनी, सुनार/स्वर्णकार, <b>दौला, सोनी बरदेरी</b>
60. शून्य	60. <b>लोहार (हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)</b>

## (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
5. बढई, बरहई, खाती, तरखान, जंगरा-ब्राह्मण, विश्वकर्मा, रामगढ़िया, पंचाल, धीमन,	5. बढई, बरहई, खाती, तरखान, जंगरा-ब्राह्मण, विश्वकर्मा, रामगढ़िया, <b>रामगढ़िया-सिख</b> , पंचाल, धीमन,
21. फकीर	21. <b>अल्वी फकीर सहित</b> फकीर,
22. गडरिया, गधेरी, गद्दी, गर्री	22. गडरिया, गधेरी, गद्दी, गर्री, <b>धांगर, कुर्बा</b>
25. जोगी, गोस्वामी	25. जोगी, गोस्वामी, <b>नाथ, योगी, गोसाई</b>
27. काछी, कोइरा, मुरई, मुराव	27. काछी, कोइरा, मुरई, मुराव, <b>मोर्या, शाक्या</b>
43. नाई, हज्जाम, नाई (सबिता), सलमानी	43. नाई, हज्जाम, नाई (सबिता), सलमानी, <b>सैन (जाति से नाई)</b>
55. शून्य	55. <b>घित, बहती, चाहंग</b>
56. शून्य	56. <b>मेव</b>
57. शून्य	57. <b>भर/राजभर</b>

## (iii) पुडुचेरी

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टियां
16. चिन्ना पट्टीनवार, पारावार, परवाथारजाकुलम, पट्टीनवार, नट्टार, पेरिया पट्टीनवार, सेम्बाडवार सहित मीनावार/अग्निकुलक्षत्रिय/मुक्कुवान	16. चिन्ना पट्टीनवार, पारावार, परवाथारजाकुलम, पट्टीनवार, नट्टार, पेरिया पट्टीनवार, सेम्बाडवार सहित मीनावार/अग्निकुलक्षत्रिय/मुक्कुवान, <b>वडबलिजा</b>

शुद्धिकरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में 51 के स्थान पर क्रम संख्या 53 में सुधार तथा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब राज्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के केन्द्रीय सूची में निम्नलिखित जातियों/समुदायों की वर्तनी में सुधार किया गया है :-

राज्य का नाम	केन्द्रीय अ.पि.व. सूची में विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित शुद्धिकरण
हिमाचल प्रदेश	51. सेनी	53. सैणी
महाराष्ट्र	133. शिम्पी, भावगर, शिव शिम्पी, नामदेव, जैन-शिम्पी, श्रावक-शिम्पी, शेटवल, शेटवाल, सैसुतार	133. शिम्पी, भावगर, शिव शिम्पी, नामदेव, जैन-शिम्पी, श्रावक-शिम्पी, शेटवल, सैतवाल, सैसुतार
उत्तराखण्ड	4. रनवाल्टा जौनपुरी समुदाय	4. रंवाल्टा/जौनपुरी समुदाय
उत्तर प्रदेश	76. गदा	76. गाड़ा
पश्चिम बंगाल	3. ग्वाला, गोप (पल्लब गोप, बल्लवगोप, यादव गोप, गोप, अहीर और यादव)	3. ग्वाला-गोप (पल्लब गोप, बल्लव गोप, यादव गोप, गोप, अहीर और यादव)
पंजाब	33. चिम्बा अथवा चिम्बे, चिप्पी अथवा छिप्पी, दर्जी, टोंक	33. चिम्बा अथवा चिम्बे, चिप्पी अथवा छिप्पी, चिम्पा, दर्जी, टोंक
	45. खांधेरा	45. कनगोहरा
	47. ठाठेरा, तमेरा	47. थथोरा, टम्पोरा

विलोपन : बिहार और कर्नाटक राज्यों में निम्नलिखित जातियों/समुदायों का विलोपन।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय अ.पि.व. सूची में विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
बिहार	2. अगरिया	2. शून्य
	14. कुमारभाग पहाडिया	14. शून्य
कर्नाटक	53. मेदारा, लिंगायत मेधार, बट्टेर, बर्नड, गोवारिया, गौरी, गौरीमराठा	53. लिंगायत मेधार, बट्टेर, बर्नड, गोवारिया, गौरी, गौरीमराठा

### अनुबंध-1

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना की तारीख	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सं.12011/68/93-बीसीसी(सी)	13.09.93	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
2.	सं.12011/9/94-बीसीसी	20.10.94	उडीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और पुडुचेरी
3.	सं.12011/7/95-बीसीसी	25.05.95	जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली



4.	सं.12011/99/94- बीसीसी	12.12.97	चंडीगढ़
----	---------------------------	----------	---------

**अनुबंध-II**

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना की तारीख	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सं.12011/02/96-बीसीसी	29.01.96	असम
2.	सं.12011/96/94-बीसीसी	11.03.96	आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
3.	सं.12011/44/96-बीसीसी	11.12.96	बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
4.	सं.12011/13/97-बीसीसी	17.12.97	उत्तर प्रदेश
5.	सं.12011/68/98-बीसीसी	27.10.99	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
6.	सं.12011/88/98-बीसीसी	06.12.99	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
7.	सं.12011/36/99-बीसीसी	04.04.2000	आंध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
8.	सं.12011/44/99-बीसीसी	21.09.2000	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
9.	सं.12011/09/2000- बीसीसी	06.09.2001	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
10.	सं.12011/01/2001- बीसीसी	20.06.2003	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
11.	सं.12011/04/2002-	13.01.2004	आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और

	बीसीसी		उत्तर प्रदेश
12.	सं.12011/09/2004- बीसीसी	17.01.2006	आंध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश
13.	सं.12011/14/2004- बीसीसी	12.03.2007	दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार, उत्तरांचल, पुडुचेरी, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र
14.	सं.12011/16/07-बीसीसी	12.10.2007	पंजाब और उड़ीसा
15.	सं.12018/06/05- बीसीसी	30.07.2010	बिहार
16.	सं.12015/02/07- बीसीसी	18.08.2010	छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और दमन एवं दीव
17.	सं.12015/15/08-बीसीसी	16.06.2011	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी
18.	सं.12015/13/2010- बीसी-2	08.12.2011	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी

गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**  
(Department of Social Justice and Empowerment)

**RESOLUTION**

New Delhi, the 17th February, 2014

**F.No.12015/05/2011-BC-II.**— Whereas the Common Central List of Other Backward Classes(OBCs) comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the Lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union Territories vide Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure-I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as NCBC) set up under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward classes in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been modified, on the recommendations of NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure-II**;

And whereas, the NCBC has further recommended castes and communities (including sub-castes and their synonyms) for inclusion or amendment in the said Central Lists in respect of thirteen States, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal and three Union Territories, namely, Chandigarh, Delhi and Puduchery;

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid recommendations of the NCBC, and have decided to notify modifications in the Central Lists of OBCs of the aforesaid States and Union Territories;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusion and amendments in the said Central Lists of OBCs in respect of the aforesaid States and Union Territories, as specified in the **Appendix**. These inclusions and amendments shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Official Gazette.

#### APPENDIX

##### PART-A

#### LIST OF STATES/UNION TERRITORIES IN RESPECT OF WHICH INCLUSION/AMENDMENTS IN THE CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) ARE BEING NOTIFIED

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Goa
4. Himachal Pradesh
5. Jharkhand
6. Karnataka
7. Kerala
8. Maharashtra
9. Punjab
10. Tamil Nadu
11. Uttarakhand
12. Uttar Pradesh
13. West Bengal
14. N.C.T. of Delhi
15. Puducherry
16. Chandigarh

##### PART-B

#### STATE-WISE MODIFICATIONS IN THE CENTRAL LIST OF OBCs

##### (i) Andhra Pradesh

Existing Entries	New Entries
108. Nil	<b>108. Gudia/ Gudiya (confined to Srikakulam, Vizianagaram and Visakhapatnam Districts only)</b>
109. Nil	<b>109. Kurmi (confined to Telangana Region and also Krishna District only)</b>
110. Nil	<b>110. Budubunjala/ Bhunjwa/ Bhadbhunja (confined to Hyderabad and Ranga Reddy Districts only)</b>
111. Nil	<b>111. Lakkamari Kapu (confined to Telangana Region only)</b>

##### (ii) Goa

Existing Entry	New Entry
20. Nil	<b>20. Vishwakarma/ Chari/ Mesta</b>

##### (iii) Himachal Pradesh

Existing Entries	Modified/New Entries
2. Ard Pop	2. Ard Pop, <b>Popo Brahman</b>

27. Dhinwar or Jhinwar, Jheewar	27. Dhinwar or Jhinwar, Jheewar, <b>Jhiwar, Jheur, Jheer</b>
54. Nil	<b>54. Choharka other than SC and ST residing in 12 Gram Panchayats in Choharghati of Mandi District (HP) viz. "Bardhan, Barot, Batheri, Dhamchyan, Kathog, Latran, Lapas, Ropa, Silbadwani, Sudhar, Tikkar and Tarswan".</b>

(iv) **Jharkhand**

Existing Entries	New Entries
128. Nil	<b>128. Chhipi</b>
129. Nil	<b>129. Mayra (Maira) Modak</b>

(v) **Karnataka**

Existing Entries	Modified/New Entries
145. Tigala, Thigala, Tigler, Vannikula Kshatriya, Vanniya, Vanniyar, Vannia Gounder, Gounder/ Gownder, Padayachi, Kander, Shambhukula Kshatriya, Agnikula Kshatriya, Dharmaraja Kapu, Kurovan, Palli	145. Tigala, Thigala, Tigler, Vannikula Kshatriya, Vanniya, Vanniyar, Vannia Gounder, Gounder/ Gownder, Padayachi, Kander, Shambhukula Kshatriya, Agnikula Kshatriya, Dharmaraja Kapu, Kurovan, Palli, <b>Agnivanni, Agni Vamsha Kshatriya</b>
146. Beldar, Chunar, Gavandi, Govandi, Gavadi, Goundi, Melusakkare, Kallu Kutiga Uppara, Melusakkreyavar, Namada Uppara, Sunna Uppara, Sunnagara, Padit/Padti, Padithi, Uppaliga, Uppaliga Shetty, Sagar, Sagara, Kerebandiyavar, Lonari, Yekkali, Yakalara	<b>146. Uppara, Uppar, Uppera, Lingayat Uppara/ Sunnagara, Uppaliyan,</b> Beldar, Chunar, Gavandi, Govandi, Gavadi, Goundi, Melusakkare, Kallu Kutiga Uppara, Melusakkreyavar, Namada Uppara, Sunna Uppara, Sunnagara, Padit/ Padti, Padithi, Uppaliga, Uppaliga Shetty, Sagar, Sagara, Kerebandiyavar, Lonari, Yekkali, Yakalara
155. Idiga, Belchad, Poojari, Desha Bhandari, Ediga, Eliga, Iliga, Halepaik, Halepaikaru, Billava, Devar, Malayali Billava, Devar, Devaramakkalu, Divaramakkalu, Namdhari, Kalal, Goundla, Goondla, Thiyan, Thiyyan, Tiyan, Ezhava, Thiyya, Nadar	155. Idiga, Belchad, Poojari, Desha Bhandari, Ediga, Eliga, Iliga, Halepaik, Halepaikaru, Billava, Devar, Malayali Billava, Devar, Devaramakkalu, Divaramakkalu, Namdhari, Kalal, Goundla, Goondla, Thiyan, Thiyyan, Tiyan, Ezhava, Thiyya, Nadar, <b>Gamalla</b>
157. Darzi, Bhavasar Kshatriya, Chippi, Chippiga, Simpi, Shimpi, Lingayat Simpy, Sivasimpy, Sai, Mirai, Rangari, Rangrez, Nilari, Namdev, Namdev Simpy, Rangare, Neelagar, Lingayat Neelagar	157. Darzi, Bhavasar Kshatriya, Chippi, Chippiga, Simpi, Shimpi, Lingayat Simpy, Sivasimpy, Sai, Mirai, Rangari, Rangrez, Nilari, Namdev, Namdev Simpy, Rangare, Neelagar, Lingayat Neelagar, <b>Banagara</b>
160. Pategar, Patvekari, Pattegar	160. Pategar, Patvekari, Pattegar, <b>Somavamsha Sahasrarjuna Kshatriya</b>
167. Balija, Balajiga, Banajiga, Bale Balajiga, Dasa Banajiga, Naidu, Bhogam/Teluga, Telaga Balija, Teluga Banajiga, Setty Balija, Setty Banajiga, Kasban, Mannur/Munnar, Mutrasi, Matracha, Janappan, Balegara, Lingayat Balegala/ Baleshettaru	167. Balija, Balajiga, Banajiga, Bale Balajiga, Dasa Banajiga, Naidu, Bhogam/ Teluga/ <b>Kalavanthi,</b> Telaga Balija, Teluga Banajiga, Setty Balija, Setty Banajiga, Kasban, Mannur/ Munnar, Mutrasi, Matracha, Janappan, Balegara, Lingayat Balegala/ Baleshettaru
196. Nil	<b>196. Raya Rawath, Ravat</b>
197. Nil	<b>197. Daveri</b>
198. Nil	<b>198. Garudi, Garudiga, Garadiga (Hindu and Muslim) (whose traditional occupation is snake-charming and performing juggling and acrobats)</b>
199. Nil	<b>199. Andi, Andipandaram</b>

(vi) **Kerala**

Existing Entries	Modified/New Entries
54. Saliya	54. Saliya, <b>Chaliya (Chaliyan) (whose caste profession is cotton weaving)</b>

79. Kallan Mooppan or Kallan Mooppar	79. <b>Moopar or</b> Kallan Mooppan or Kallan Mooppar
82. Nil	<b>82. Mahendra-Medara</b>
83. Nil	<b>83. Kuruba</b>

(vii) **Maharashtra**

Existing Entry	Modified Entries
14. Bhadbhunja, Bhurjawa, Bhurji, Bharadbhunga, Bhuranji, Bhunj	14. Bhadbhunja, Bhurjawa, Bhurji, Bharadbhunga, Bhuranji, Bhunj, <b>Bhujwa</b>
159. Mali (Sub-castes:Phul Mali, Phule, Halade, Kacha, Kadu, Bawane, Ad Prabhu, Ad Shethi, Jire, Unde, Lingayat Mali, Banka Mali, Gase Mali, Kosare Mali, Marar, Maral, Savta Mali, Van Mali, Bagban/Rayeen), Sutars, Malis, Vadvals, Chaukalshis	159. Mali (Sub-castes: Phul Mali, Phule, Halade, Kacha, Kadu, Bawane, Ad Prabhu, Ad Shethi, Jire, Unde, Lingayat Mali, Banka Mali, Gase Mali, Kosare Mali, Marar, Maral, Savta Mali, Van Mali, Bagban/ Rayeen), Sutars, Malis, Vadvals, Chaukalshis, <b>Pachkalshi, Somvanshi Kshatris and Pathares,</b>

(viii) **Punjab**

Existing Entries	Modified Entries
11.Rehar, Rahara	11. Rehar, Rahara, <b>Re</b>
21. Nai, Sain	21. Nai, Sain, <b>Nai (Kuleen Brahm)</b>
26. Barai	26. Barai, <b>Tamboli</b>
40. Jhangra Brahman, Khati, Lohar, Saifi, Ramgarhia, Turkhan	40. Jhangra Brahman, Khati, Lohar, Saifi, Ramgarhia, Turkhan, <b>Dhiman</b>

(ix) **Tamil Nadu**

Existing Entries	Modified/New Entries
3. Ambalakarar, Ambalakaran	3. Ambalakarar, Ambalakaran ( <b>including Servai</b> )
146. Thoriyar, Badaga Thoraiyar of Nilgiris	146. Thoriyar, Badaga Thoraiyar of Nilgiris, <b>Thoraiyar (Plains)</b>
147. Thottiya Naicker (including Rajakambalam, Gollavar, Sillavar, Thockalavar and Tholuva Naicker)	147. Thottiya Naicker (including Rajakambalam, Gollavar, Sillavar, Thockalavar and Tholuva Naicker), <b>Erragollar</b>
162. Vellan Chettiar	162. Vellan Chettiar, <b>Agaram Vellan Chettiar</b>
181. Nil	<b>181. Latin Catholic Christian Vannar (in Kanniyakumari District)</b>

(x) **West Bengal**

Existing Entry	New Entries
63. Nil	<b>63. Devanga</b>
64. Nil	<b>64. Hajjam (Muslim)</b>
65. Nil	<b>65. Chowduli (Muslim)</b>
66. Nil	<b>66. Nikari (Muslim)</b>
67. Nil	<b>67. Mahaldar (Muslim)</b>
68. Nil	<b>68. Dhukre (Muslim)</b>
69. Nil	<b>69. Basni/ Bosni (Muslim)</b>
70. Nil	<b>70. Abdal (Muslim)</b>
71. Nil	<b>71. Kan (Muslim)</b>
72. Nil	<b>72. Tutia (Muslim)</b>
73. Nil	<b>73. Gayen (Muslim)</b>
74. Nil	<b>74. Beldar Muslim</b>

75. Nil	<b>75. Khotta Muslim</b>
76. Nil	<b>76. Muslim Sardar</b>
77. Nil	<b>77. Muslim Kalandar</b>
78. Nil	<b>78. Muslim Laskar</b>
79. Nil	<b>79. Muslim Jamadar</b>
80. Nil	<b>80. Muslim Chutor Mistri</b>
81. Nil	<b>81. Muslim Dafadar</b>
82. Nil	<b>82. Mal Muslim</b>
83. Nil	<b>83. Majhi/ Patni Muslim</b>
84. Nil	<b>84. Muchi/ Chamar Muslim</b>
85. Nil	<b>85. Muslim Nehariya</b>
86. Nil	<b>86. Muslim Haldar</b>
87. Nil	<b>87. Muslim Sanpui/ Sapui</b>
88. Nil	<b>88. Muslim Biswas</b>
89. Nil	<b>89. Muslim Mali</b>
90. Nil	<b>90. Ghosi (Muslim)</b>
91. Nil	<b>91. Muslim Darji /Ostagar/ Idrishi</b>
92. Nil	<b>92. Muslim Rajmistri</b>
93. Nil	<b>93. Muslim Bhatiyara</b>
94. Nil	<b>94. Muslim Molla</b>
95. Nil	<b>95. Dhali (Muslim)</b>
96. Nil	<b>96. Muslim Piyada</b>
97. Nil	<b>97. Muslim Barujibi/ Barui</b>
98. Nil	<b>98. Muslim Penchi</b>
99. Nil	<b>99. Gangot</b>

**Union Territory**(i) **Chandigarh**

<b>Existing Entries</b>	<b>Modified/New Entries</b>
4. Barai, Tamboli /Tomboli	4. Barai, Tamboli/ Tomboli, <b>Tarboli</b>
5. Barra	5. Barra, <b>Berrer</b>
9. Bharbhunja, Bharbhuja	9. Bharbhunja, Bharbhuja, <b>Bharbhuria</b>
12. Chang,	12. Chang, <b>Chahang</b>
13. Changar	13. Changar, <b>Chamgar</b>
14. Chhimba/ Chimba, Chhippi/ Chhipi/Chippi	14. Chhimba/ Chimba, Chhippi/ Chhipi/ Chippi, <b>Darji/ Darj, Tank, Chimpa, Chiba (Hindu, Muslim, Sikh, Christian)</b>
19. Dhimar, Dhinwar, Jhinwar, Kahar, Mallah	19. Dhimar, Dhinwar, Jhinwar, Kahar, Mallah, <b>Kasye Rajputs</b>
21. Dhosali, Dosali	21. Dhosali, Dosali, <b>Bhosali (Hindu, Muslim, Sikh, Christian)</b>
23. Gadaria/ Gaddaria	23. Gadaria/ Gaddaria, <b>Gadderia</b>
25. Ghasiara, Ghosi	25. Ghasiara, Ghosi, <b>Ghani/ Ghazi, Goasiara or Ghosia</b>
28. Hajjam/Hazam, Nai	28. Hajjam/ Hazam, Nai, <b>Nais</b>
35. Kurmi	35. Kurmi, <b>Kummi</b>

39. Lakhera, Manihar	39. Lakhera, Manihar, <b>Kanihar</b>
46. Pinja, Penja	46. Pinja, Penja, <b>Pemja (Hindu, Muslim, Christian, Sikh)</b>
49. Rehar, Rehare/Rehara, Rer/Re	49. Rehar, Rehare/ Rehara, Rer/ Re, <b>Rehard</b>
51. Singhikant, Singiwala/ Singhiwala	51. Singhikant, Singiwala/ Singhiwala, <b>Singhikar, Singhwala</b>
54. Thathera /Thethera	54. Thathera /Thethera, <b>Tamera</b>
59. Soni, Sunar /Swarnakar	59. Soni, Sunar/ Swarnakar, <b>Daula, Soni Barderi</b>
60. Nil	<b>60. Lohar (Hindu, Muslim, Sikh, Christian)</b>

## (ii) NCT of Delhi

Existing Entries	Modified/New Entries
5. Badhai, Barhai, Khati, Tarkhan, Jangra-Brahmin, Vishwakarma, Ramgarhia, Panchal, Dheeman	5. Badhai, Barhai, Khati, Tarkhan, Jangra-Brahmin, Vishwakarma, Ramgarhia, <b>Ramgarhia-Sikh</b> , Panchal, Dheeman
21. Fakir	21. Fakir including <b>Alvi-Fakir</b>
22. Gadaria, Gadheri, Gaddi, Garri	22. Gadaria, Gadheri, Gaddi, Garri, <b>Dhangar, Kurba</b>
25. Jogi, Goswami	25. Jogi, Goswami, <b>Nath, Yogi, Gosain</b>
27. Kachhi, Koeri, Murai, Mura	27. Kachhi, Koeri, Murai, Mura, <b>Maurya, Shakya</b>
43. Nai, Hajjam, Nai (Sabita), Salmani	43. Nai, Hajjam, Nai (Sabita), Salmani, <b>Sain (barbers by caste)</b>
55. Nil	<b>55. Ghrit, Bahti, Chahng</b>
56. Nil	<b>56. Meo</b>
57. Nil	<b>57. Bhar/ Rajbhar</b>

## (iii) Puducherry

Existing Entry	Modified Entry
16. Meenavar/ Agnikulakshatriya/ Mukkuvan Including:- Chinna Pattinavar, Nattar, Paravar, Parvatharajakulam Pattinavar, Periya Pattinavar, Sembadavar	16. Meenavar/ Agnikulakshatriya/ Mukkuvan including:- Chinna Pattinavar, Nattar, Paravar, Parvatharajakulam Pattinavar, Periya Pattinavar, Sembadavar, <b>Vadabaliya</b>

**CORRECTIONS**

Correction of serial number 53 in place of 51 in respect of the State of Himachal Pradesh and correction of spelling of the following castes/communities for the State of Maharashtra, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka and Punjab:

Name of the State	Existing Entries	Modified Entries
Himachal Pradesh	51. Saini	<b>53. Saini</b>
Maharashtra	133. Shimpi, Bhavgar, Shiv Shimpi, Namdev, Jain-Shimpi, Shrivak-Shimpi, Shetwal, Shaitwal, Saisutar	133. Shimpi, Bhavgar, Shiv Shimpi, Namdev, Jain-Shimpi, Shrivak-Shimpi, Shetwal, <b>Saitwal</b> , Saisutar
Uttarakhand	4. Ranwalta Jaunpuri Community	<b>4. Ranwalta/ Jaunpuri Samuday</b>
Uttar Pradesh	76. गढ़ा	76. गाड़
West Bengal	3.Goala, Gope (Pallav Gope, Ballav Gope, Yadav Gope, Gope, Ahir and Yadav)	3. <b>Goala-Gope</b> (Pallav Gope, Ballav Gope, Yadav Gope, Gope, Ahir and Yadav)
Punjab	33. Chimba or Chimbe, Chippi or Chhipi, Darzi, Tonk	33. Chimba or Chimbe, Chippi or <b>Chhippi, Chimpa</b> , Darzi, Tonk
	45. Khanghera	45. <b>Kangohra</b>

	47. Thathera, Tamera	47. <b>Thathora, Tampora</b>
--	----------------------	------------------------------

**DELETION**

Deletion of certain castes/communities in the States of Bihar and Karnataka:

Name of the State/UTs	Existing Entries	Modified Entries
Bihar	2. Agariya	2. Nil
	14. Kumarbhag Pahadia	14. Nil
Karnataka	53. Medara, Lingayat Medhar, Batter, Burned, Gowriga, Gowri, Gowrimaratha	53. Lingayat Medhar, Batter, Burned, Gowriga, Gowri, Gowrimaratha

**ANNEXURE-I****LIST OF STATES/UTs IN RESPECT OF WHICH COMMON LISTS HAVE BEEN NOTIFIED**

Sl. No.	Resolution No.	Date of Notification	Concerned State/UT
1.	No.12011/68/93-BCC(C)	13.09.1993	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
2.	No.12011/9/1994-BCC	19.10.1994	Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu and Puducherry.
3.	No.12011/7/95-BCC	24.05.1995	J&K, Manipur, Sikkim & NCT of Delhi.
4.	No.12011/99/94-BCC	11.12.1997	Chandigarh.

**ANNEXURE-II****LIST OF STATES/UTs IN RESPECT OF WHICH INCLUSIONS/AMENDMENTS IN THE CENTRAL LISTS OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) HAVE BEEN NOTIFIED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF NCBC**

Sl. No.	Resolution No.	Date of Resolution/ Notification	Concerned State/UT
1.	No.12011/02/96-BCC	27.01.1996	Assam
2.	No.12011/96/94-BCC	09.03.1996	Andhra Pradesh, Kerala, M.P., Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal
3.	No.12011/44/96-BCC	11.12.1996	Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal.
4.	No.12011/13/97-BCC	03.12.1997	Uttar Pradesh.
5.	No.12011/68/98-BCC	27.10.1999	Andhra Pradesh, Chandigarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, M.P., Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, U.P. and W.B.
6.	No.12011/88/98-BCC	06.12.1999	Andhra Pradesh, Chandigarh, Bihar, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, U.P. and W.B.
7.	No.12011/36/99-BCC	04.04.2000	Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Puducherry, Rajasthan, Sikkim, Tripura, U.P. and W.B.
8.	No.12011/44/99-BCC	21.09.2000	Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, U.P. and W.B.



9.	No.12015/9/2000-BCC	06.09.2001	Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, U.P. and W.B.
10.	No. 12011/1/2001-BCC	19.06.2003	Andhra Pradesh, Chandigarh, Delhi, Haryana, Karnataka, Orissa, Rajasthan and W.B.
11.	No.12011/4/2002-BCC	13.01.2004	Andhra Pradesh, Bihar, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
12.	No.12011/9/2004-BCC	16.01.2006	A.P., Bihar, NCT of Delhi, Goa, Gujarat, Karnataka, M.P., Maharashtra, Orissa, Puducherry and U.P.
13.	No.12011/14/2004-BCC	12.03.2007	Daman & Diu, Andaman & Nicobar, Uttarakhand, Puducherry, Tripura, Karnataka, Gujarat and Maharashtra
14.	No.12011/16/2007-BCC	12.10.2007	Punjab & Orissa
15.	No.12018/6/2005-BCC	30.7.2010	Bihar
16.	No. 12015/2/2007-BCC	18.8.2010	Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Rajasthan and Daman & Diu.
17.	No. 12015/15/2008-BCC	16.6.2011	Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.
18.	No.12015/13/2010-BC-II	8.12.2011	Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, N.C.T. of Delhi, Orissa, Puducherry, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal.

GHAZALA MEENAI, Jt. Secy.